

## मुख्यमंत्री ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी में 2600 करोड़ रुपए के कार्यों का कथिा शुभारंभ

### चरचा में क्यौं

11 जून, 2023 को हरयाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर सोनीपत ज़िले के गन्नौर स्थिति भारतीय अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी में 2600 करोड़ रुपए के दूसरे चरण के कार्यों के नरिमाण का शुभारंभ कथिा ।

### परमुख बढि

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करीब 55 करोड़ रुपए की वभिन्न विकास परयोजनाओं की भी आधारशलिा रखी ।
- मुख्यमंत्री ने बताया कथि यह बागवानी मंडी भारत ही नहीं बल्क एशया की सबसे बड़ी मंडी बनेगी । इससे उत्तर भारत के राज्यों के करेताओं-वकिरेताओं को वशिष लाभ मलैगा । यह दल्लि की आज़ादपुर मंडी के बेहतरीन वकिल्प के रूप में तैयार होगी, जसिमें हर प्रकार की सुवधिाँ मुहैया होंगी ।
- इससे राज्य के कसिानों की आमदनी दोगुनी होगी । साथ ही यह कसिानों के साथ फल व सब्जी उत्पादकों, आम लोगों तथा व्यापारयिों के लयि खासी लाभकारी सदिध होगी ।
- मंडी कसिानों की आत्मनरिभरता के साथ प्रदेश को भी आत्मनरिभरता की ओर बढाएगी, जसिसे राज्य की आर्थकि स्थतिा को मजबूती मलैगी । कसिानों की आय को बढाने का जो लक्ष्य नरिधारति कथिा गया है उसकी पूरता में मंडी की वशिष भूमकिा रहेगी ।
- साथ ही, इसमें तीन हज़ार करोड़ रुपए की लागत से कार्यों को वसितार दयिा जाएगा, जबकि 2600 करोड़ रुपए के टेंडर के कार्यों को दो वर्ष के भीतर पूरा कर लयिा जाएगा । हरयाणा के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड राज्यों के कसिान-व्यापारी मंडी का लाभ उठा सकेंगे ।
- मुख्यमंत्री ने गन्नौर खंड के सब्जी उत्पादन करने वाले कसिानों को तीन वर्षों के लयि पाँच हज़ार रुपए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दएि जाने की घोषणा भी की । वदिति है कविरतमान में गन्नौर खंड में तीन हज़ार एकड़ में सब्जी उत्पादन कथिा जा रहा है ।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कथि सुरजमुखी उत्पादक कसिानों के लयि कुरूक्षेत्र में चार एकड़ भूमि में तेल का कारखाना स्थापति कथिा जाएगा, जसिकी क्षमता 20 हज़ार मट्रिक टन की होगी । सुरजमुखी के बीज से तेल व घी का नरिमाण कथिा जाता है ।



//

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-minister-inaugurated-works-worth-rs-2600-crore-in-indian-international-horticulture-market>

